

प्रेसनोट

दिनांक 18.01.2023

***पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 18.01.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अपराधनियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण*:-**

- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दिलशाद पुत्र रशीद निवासी ग्राम लम्बिया थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. इलियाश पुत्र असगर खान निवासी करतौला थाना खिजरिया जनपद रामपुर व 2. मन्सूर पुत्र मकशूद अहमद निवासी ग्राम ढक्का थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को मय 01-01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा चैंकिंग/गस्त के दौरान सूचना पर खुम्भावली ढाल के पास से 02 अभियुक्त 1. संजय पुत्र खानचन्द्र निवासी मौ0 मायापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा व 2. जय प्रकाश पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम फौंदापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 248 ग्राम गांजा (सुल्फा) सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।
- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा बंधक बनाकर मारपीट करने व धोखाधडी से बैनामा करा लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिद पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम अतरासी कलां थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया जिसमें थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया ।